

बंगाल में भाजपा ने राष्ट्रीय सुरक्षा को मुख्य मुद्दा बनाया

भाजपा नेताओं ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर (चिकन्स नैक) की सुरक्षा को मजबूती से उठाया

—जाल खंबाता—
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—
नई दिल्ली, 19 अप्रैल। पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह सहित, सभी शीर्ष भाजपा नेताओं के भाषणों में एक साझा विषय राष्ट्रीय सुरक्षा, घुसपैठ और राज्य के उत्तर में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे “चिकन्स नैक” भी कहा जाता है, रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह संदेश स्थानीय लोगों के बीच भी प्रभावी रहा है, जिनके लिए बांग्लादेश से घुसपैठ एक बढ़ता हुआ मुद्दा बन रही है।

प्रधानमंत्री मोदी ने सिलीगुड़ी की रेली में अपने भाषण में कहा, हमारा सिलीगुड़ी भारत की सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रवेश द्वारों में से एक है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर मातृभूमि भारत के लिए अति आवश्यक है। मैं आपको तृणमूल कांग्रेस की गलतियों का उदाहरण देना चाहता हूँ, जब राष्ट्र की

■ प्रधानमंत्री ने सिलीगुड़ी की एक जनसभा में तृणमूल कांग्रेस पर सिलीगुड़ी कॉरिडोर को भारत से अलग करने की धमकी देने वालों का समर्थन करने का आरोप लगाया।

सुरक्षा की बात आती है। देश में एक टुकड़े-टुकड़े गैंग है। इस गैंग ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर से संबंधित धमकी दी थी। उन्होंने उत्तर-पूर्व को देश से अलग करने की बात की है। अपनी तुष्टिकरण नीति को आगे बढ़ाने के लिए, तृणमूल कांग्रेस ऐसे लोगों का समर्थन सड़कों और संसद में करती है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा, भाजपा के लिए, सिलीगुड़ी कॉरिडोर राष्ट्रीय सुरक्षा और समृद्धि का मार्ग है। और हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि इस जगह को मजबूत बनाया जाए। सेवोक-रंगपो रेलवे लिंक इसका एक उदाहरण है। इस परियोजना से विक्रम सिलीगुड़ी और देश के रेलवे नेटवर्क से जुड़ जाएगा। इस

सीमा पर बाड़ लगाने के लिए भूमि सौंपने में देरी की है।

पूर्व विदेश सचिव और राज्यसभा सदस्य हर्षवर्धन श्रिंगला ने कहा, “सिलीगुड़ी कॉरिडोर वह भूमि खंड है, जो हमारे देश के उत्तर-पूर्व को भारत के शेष हिस्से से जोड़ता है। यह 22 किलोमीटर की बहुत संकरी पट्टी है। दार्जिलिंग निर्वाचन क्षेत्र दुनिया का शायद एकमात्र निर्वाचन क्षेत्र है, जिसमें तीन अंतरराष्ट्रीय सीमाएँ हैं। यह पश्चिम में नेपाल, पूर्व में भूटान और दक्षिण में बांग्लादेश से जुड़ा है। अगर आप थोड़ा उत्तर की ओर जाएँ, तो आप चीन की सीमा तक भी पहुँच जायेंगे। इस प्रकार यह हमारे देश का बहुत संवेदनशील हिस्सा है, और यहाँ सुरक्षा-संबंधी महत्वपूर्ण विचार हैं, जो रणनीतिक स्थिति के कारण अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। घुसपैठ और अन्य सुरक्षा-संबंधी मुद्दे चुनावी नैरेटिव में भी अहम भूमिका निभाते हैं।”

ईरान ने वार्ता के लिए पाकिस्तान जाने से मना किया

तेहरान/वाशिंगटन, 19 अप्रैल। अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली दूसरे दौर की शांति वार्ता पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। जहाँ एक ओर ट्रंप ने ईरान को डील करने के लिए आखिरी धमकी दे डाली है, तो वहीं नाकाबंदी से खफा ईरान वार्ता से पीछे हटने की

■ ट्रंप ने कहा कि सोमवार को अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल इस्लामाबाद जाएगा।

धमकी दे रहा है। बता दें कि दूसरे दौर की भी वार्ता इस्लामाबाद में होनी है, लेकिन वार्ता से पहले कई पेच फंस गए हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने कहा कि होर्मुज़ जलडमरूमध्य के पास जहाजों पर गोलीबारी करके ईरान ने दोनों देशों के बीच हुए युद्धविराम का पूर्ण उल्लंघन किया है। लेकिन उन्होंने सत्ता परिवर्तन की हर संभव कोशिश कर रही है और विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) ने अनिश्चितता और भ्रम को और बढ़ा दिया है। लेकिन ममता का राजनीतिक सफर यह दर्शाता है कि (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

इस बार सबसे कठिन चुनावी मुकाबले का सामना कर रही हैं ममता बनर्जी

सत्ता विरोधी लहर के साथ भारी भ्रष्टाचार के आरोप और भाजपा की ताकत ने उनके लिए भारी चुनौतियाँ पैदा कर दी हैं

—जाल खंबाता—
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—
नई दिल्ली, 19 अप्रैल। बंगाल उच्च-स्तरीय चुनाव के लिये तैयार हो रहा है, वहीं, बहुत से लोगों का मानना है कि इस बार ममता बनर्जी को कांटे की टक्कर का सामना करना पड़ेगा। तृणमूल कांग्रेस की संस्थापिका 71 वर्षीय ममता बनर्जी तीन कार्यकाल से मुख्यमंत्री हैं।

उनकी पार्टी को एंटी-इंकम्बेंसी (सत्ता-विरोध) और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना करना पड़ रहा है। मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा सत्ता परिवर्तन की हर संभव कोशिश कर रही है और विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) ने अनिश्चितता और भ्रम को और बढ़ा दिया है। लेकिन ममता का राजनीतिक सफर यह दर्शाता है कि

■ लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि ममता का अब तक का राजनीतिक सफर दर्शाता है कि जब वे मुश्किल मुकाबले में होती हैं तो बेहद साहसी और आक्रामक हो जाती हैं।

जब उन्हें कठिन लड़ाई का सामना करना पड़ता है, तो वे बहुत ज्यादा साहसी और आक्रामक होती हैं। बनर्जी जब 17 साल की थीं, तब उनके पिता, प्रोमिलेश्वर बनर्जी, का निधन हो गया। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनके पिता का निधन इलाज की कमी के कारण हुआ और परिवार मेडिकल बिलों का भुगतान नहीं कर सका, क्योंकि सरकारी विभाग उनके पिता, जो एक ठेकेदार थे, के बकाया भुगतान को मंजूरी नहीं दे रहे थे। उनके पिता की मृत्यु के अगले दिन ही

चर्चील स्ट्रीट स्थित बनर्जी के घर एक चेक के रूप में 60,000 रुपये पहुँचे। उन्होंने 2012 में “आउटलुक” को दिये इस इंटरव्यू में बताया, “चेक बेकार था; यह मेरे पिता को वापस नहीं ला सकता था। केवल भगवान ही हमारे दर्द और बाबा के जाने के बाद के हमारे संघर्ष का साक्ष्य है।” कलिंग छात्रा के रूप में, बनर्जी का जीवन अपने साथियों से अलग था। वे सुबह-सवेरे उठकर अपने पाँच भाई-बहनों और माँ के लिए खाना बनाती थीं, (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

हम युद्ध नहीं चाहते, आत्मरक्षा में कदम उठा रहे हैं- ईरानी राष्ट्रपति

उन्होंने कहा कि ट्रंप ईरान को न्यूक्लियर अधिकारों से वंचित नहीं कर सकते

तेहरान, 19 अप्रैल। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशिकयन ने स्पष्ट किया है कि उनका देश किसी भी तरह के युद्ध का पक्षधर नहीं है और मौजूदा हालात में केवल आत्मरक्षा के तहत कदम उठा रहा है। ईरानी स्टूडेंट न्यूज एजेंसी के मुताबिक, पेजेशिकयन ने कहा कि ईरान ने कभी किसी देश पर हमला नहीं किया है और न ही उसका ऐसा कोई इरादा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि देश में शांति और स्थिरता बनाए रखना तेहरान की प्राथमिकता है।

राष्ट्रपति पेजेशिकयन ने अमेरिका और इजरायल पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि दोनों देशों ने नागरिक ढाँचों को निशाना बनाया है, जो अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। उन्होंने इसे मानवाधिकारों पर दोहरे

मोदी ने सड़क किनारे दुकान पर बच्चों को झालमूड़ी खिलाई

कोलकाता, 19 अप्रैल। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव प्रचार के बीच रविवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का एक अलग और सहज अंदाज झाड़ग्राम में देखने को मिला। चुनावी रैली को संबोधित करने के बाद एस्पीजी की भारी सुरक्षा तोड़ प्रोटोकॉल से बाहर निकल कर प्रधानमंत्री मोदी अचानक सड़क किनारे स्थित एक दुकान पर रुक गए। इस दौरान उन्होंने झालमूड़ी (चावल का भुज्जा जो तेल प्याज और मिर्ची मिलाकर बनाया जाता है) का

■ चुनाव सभा के बाद हेलीकॉप्टर की ओर जाते समय मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़ झालमूड़ी की दुकान पर काफिला रुकवाया

स्वाद लिया, बच्चों और महिलाओं को खिलाया। उन्होंने वहाँ मौजूद लोगों से बातचीत भी की। प्रधानमंत्री के अचानक रुकने से सुरक्षा व्यवस्था में तैनात कर्मी भी कुछ क्षणों के लिए चौंक गए, जबकि स्थानीय लोगों में उत्साह की लहर दौड़ गई। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रविवार को पश्चिम बंगाल में कई चुनावी सभाओं को संबोधित करने पहुँचे थे। झाड़ग्राम में (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

■ राष्ट्रपति पेजेशिकयन ने आरोप लगाया कि अमेरिका और इजरायल ने ईरान के नागरिक ढाँचों को निशाना बनाया, जो अंतरराष्ट्रीय कानून तथा मानवाधिकार का उल्लंघन है।

मापदंड का उदाहरण बताया। पेजेशिकयन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की, उन्होंने कहा कि ट्रंप के पास ईरान को उसके परमाणु अधिकारों से वंचित करने का कोई ठोस कारण नहीं है।

उन्होंने कहा, “ट्रंप कहते हैं कि ईरान अपने न्यूक्लियर अधिकारों का इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन वे यह नहीं बताते कि किस जुर्म के लिए वे कौन होते हैं किसी देश को उसके अधिकारों से वंचित करने वाले? रिपोर्ट के मुताबिक, वाशिंगटन और तेहरान के बीच परमाणु मुद्दे को लेकर तनाव बना हुआ है। इसी बीच ईरान के शीर्ष नेतृत्व ने अपने रुख को दोहराते हुए कहा है कि देश अंतरराष्ट्रीय

नियमों के दायरे में रहकर अपने अधिकारों की रक्षा करेगा। वहीं ईरान के मुख्य वार्ताकार और संसद अध्यक्ष मोहम्मद बघेर कालिबाफ ने भी कहा कि उनका देश स्थायी शांति चाहता है। एक टीवी इंटरव्यू में उन्होंने अमेरिका पर अविश्वास जताते हुए कहा कि ईरान की नीयत स्पष्ट है और वह ऐसी स्थिति चाहता है, जहाँ भविष्य में युद्ध की आशंका न रहे। उन्होंने कहा कि हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती अमेरिका पर भरोसे की कमी है, लेकिन हम स्थायी शांति के लिए प्रतिबद्ध हैं। आपको बता दें कि इस्लामाबाद में पहले दौर की वार्ता के वक्त भी ऐसा ही हुआ था और ईरान ने कहा था कि उसे अमेरिका की बातों पर विश्वास नहीं है।

पूर्व केन्द्रीय मंत्री दिनेश त्रिवेदी बांग्लादेश में उच्चायुक्त बने

नई दिल्ली, 19 अप्रैल। भारत सरकार ने पूर्व केन्द्रीय मंत्री दिनेश त्रिवेदी को बांग्लादेश में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया है। इस नियुक्ति को भारत-बांग्लादेश संबंधों

■ वे लंबे समय से तृणमूल कांग्रेस से जुड़े थे, फिर भाजपा में शामिल हो गए। उनके पास प्रशासन व राजनीति का लंबा अनुभव है।

को और मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

दिनेश त्रिवेदी एक वरिष्ठ राजनेता हैं, जो केन्द्र सरकार में रेल मंत्री रह चुके हैं। वे लंबे समय तक तृणमूल कांग्रेस से जुड़े रहे और बाद में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हुए। उनके पास प्रशासन और राजनीति का लंबा अनुभव है, जिसे इस नई भूमिका में उपयोगी माना जा रहा है।

बांग्लादेश भारत का एक (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अमेरिका बंदरगाहों की घेराबंदी खत्म करे, तब होर्मुज़ खुलेगा- ईरान

दूसरी ओर ट्रंप ने कहा कि जब तक समझौता नहीं हो जाता, नौसैनिक घेराबंदी जारी रहेगी

तेहरान/वाशिंगटन/बेरुत, 19 अप्रैल। होर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर गहराया संकट निकट भविष्य में हल होता नहीं दिख रहा। दुनिया ईरान और अमेरिका से जल्द ही इस मसले को सुलझाने की अपील करते-करते हार चुकी है। दूसरे दौर की बातचीत के करीब आते, दोनों देशों के बीच अविश्वास और मतभेदों का दायरा और बढ़ गया है। ईरान ने काफी हद तक अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। ईरान ने बिना लागू लपेट के कहा कि वह होर्मुज़ स्ट्रेट को तभी खोलेगा, जब अमेरिका की सेना उसके बंदरगाहों की घेराबंदी खत्म कर लौट जाएगी।

अल जजीरा और सीबीएस न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, ईरान के उप विदेशमंत्री सईद खलीबजादेह ने कहा कि अमेरिका के साथ आमने-सामने की बातचीत के नए दौर के लिए अभी कोई तारीख तय नहीं की गई है। उन्होंने हठधर्मिता के लिए वाशिंगटन की कड़ी आलोचना की। उन्होंने साफ किया कि

■ ईरान का कहना है कि लेबनान में संघर्ष विराम के बाद होर्मुज़ से सुरक्षित आवाजाही की घोषणा की थी, पर अमेरिका ने यह कह कर बाधा डाली कि मार्ग तो खुला है, पर ईरानियों के लिए नहीं। यह बात हमें चुभ गई।

अगर अमेरिका चाहता है कि होर्मुज़ स्ट्रेट खुले तो उसे सबसे पहले हमारे बंदरगाहों की घेराबंदी खत्म कर सेना को लौटने का आदेश देना होगा।

इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने कहा कि जब तक समझौता नहीं होगा, तब तक ईरानी बंदरगाहों पर नौसैनिक घेराबंदी जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि वाशिंगटन तेहरान के किसी भी तरह के दबाव में नहीं आएगा। खतीबजादेह ने तुर्किये के अंताल्या डिल्लोमेसी फोरम में पत्रकारों से कहा है कि तेहरान और वाशिंगटन के बीच आले दोर की बातचीत के लिए कोई भी तारीख तय नहीं की गई है। उन्होंने कहा, अभी तक हम आपसी समझ का ढाँचा तय करने पर ध्यान दे

रहे हैं। इस पर सफलता मिलने पर अगले कदमों की घोषणा होगी। अगर अमेरिका अतिवादी रवैया न अपनाता तो समझौता काफी पहले हो जाता। उन्होंने कहा, ईरान अंतरराष्ट्रीय कानून के दायरे में ही अमेरिका से कोई समझौता करेगा। परमाणु अप्रसार संधि और अंतरराष्ट्रीय परमाणु एजेंसी सदस्य होने के नाते ईरान की कुछ जिम्मेदारियाँ हैं और कुछ अधिकार भी हैं। ईरान अपने अधिकारों का हकदार है। लेबनान में संघर्ष विराम के बाद हमने कहा कि होर्मुज़ से अब सुरक्षित आवाजाही होगी। मगर इसमें अमेरिका ने बाधा डाल दी।

उसने कहा दिया यह मार्ग खुला तो है, लेकिन ईरानियों के लिए नहीं।

यही बात हमें चुभ गई। और दुर्भाग्य से वह अभी भी बातचीत के जरिए कूटनीतिक तमामों को कोशिश कर रहा है।

ईरानी संसद के अध्यक्ष ने शनिवार रात कहा कि अमेरिका के साथ शांति वार्ता में कुछ प्रगति हुई है, लेकिन दोनों पक्ष अभी भी समझौते से कोसों दूर हैं। मोहम्मद बाघर गालिबाफ ने राष्ट्रीय संवोधन में कहा, “हम अभी भी अंतिम चर्चा से काफी दूर हैं।” ईरान की सेना शनिवार को घोषणा कर चुकी है, उसने होर्मुज़ स्ट्रेट पर फिर से नियंत्रण हासिल कर लिया है। उसने चेतावनी दी कि जब तक ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिका की नाकेबंदी जारी रहेगी, तब तक वह इस जलमार्ग से आवाजाही को रोकता रहेगा। ब्रिटिश सेना ने इस दौरान कहा कि दो ईरानी गनबोटों ने जलडमरूमध्य में एक टैंकर पर गोलीबारी की। भारत ने भी पुष्टि की कि ईरान के हमलों में उसके दो जहाजों को निशाना बनाया गया।

उत्साहित विपक्ष फिर मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग लाने के मूड में

नई दिल्ली, 19 अप्रैल। लंबी बहस और मतभेदों के बीच शुक्रवार को संविधान का 131वाँ संशोधन बिल लोकसभा में गिर गया। यह बिल महिला आरक्षण कानून में संशोधन लाने के लिए लाया गया था।

कुल मिलाकर महिला आरक्षण कानून पास नहीं हो पाया। इसे लेकर

■ इंडिया गठबंधन की प्रमुख पार्टियाँ महाभियोग का संभावित मसौदा तैयार करने में जुट गईं बताते हैं।

राजनीतिक घमासान तेज है। संसद में इस जीत से उत्साहित विपक्ष एक और अहम फैसला लेने की तैयारी कर रहा है। विपक्षी दल सीईसी के खिलाफ फिर से महाभियोग प्रस्ताव लाने की योजना बना रहे हैं।

कांग्रेस एवं टीएमसी समेत, विपक्षी पार्टियाँ संसद में मुख्य चुनाव आयुक्त (शेष अंतिम पृष्ठ पर)